

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला अलीराजपुर में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, सचिव.

जिला-अलीराजपुर

स. क्र. (1)	क्र. (2)	विभाग (3)	अधिकारी का नाम (4)	पद (5)
1.	1	कृषि	1 श्री एम. एस. देवके	उपसंचालक
2.			2 श्री दिलीप जामगावकर	सहा. संचालक, कृषि
3.			3 श्री एल. एस. चारेल	सहा. संचालक, कृषि
4.			4 श्री ए. एस. सौलंकी	अनु. अधि., कृषि, अलीराजपुर
5.	2	महिला एवं बाल	1 श्री अजयसिंह चौहान, सोण्डवा	परि. अधि. महिला एवं बाल वि. परि., सोण्डवा
6.		विकास विभाग	2 श्री विजय सौलंकी, जोबट	परि. अधि. महिला एवं बाल वि. परि., जोबट

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	3	जल संसाधन	1 श्री अरूण कुमार शर्मा	सहा. यंत्री, प्रभारी कार्यपालन यंत्री
8.			2 श्री सुनील गिरवाल	सहा. यंत्री, अलीराजपुर
9.			3 श्री उमेश सिंह वास्केल	सहा. यंत्री, उदयगढ़
10.			4 श्री अशोक कुमार पाण्डे	सहा. यंत्री, जोबट
11.			5 श्री गेंदालाल धनोरे	सहा. यंत्री, सोण्डवा
12.			6 श्री अशोक कुमार रायकवार	सहा. यंत्री, संलग्न अधिकारी
13.			7 श्री बी. एल. मीणा	संभागीय लेखाधिकारी
14.	4	लोक स्वा. यांत्रिकी	1 श्री आर. डी. राठौर	सहायक यंत्री, अलीराजपुर
15.			2 श्री जे. सी. गर्ग	सहायक यंत्री, अलीराजपुर
16.			3 श्री आर. पी. मालवीय	सहायक यंत्री, जोबट
17.			4 श्री बी. पी. दुबे	सहायक यंत्री, भाभरा
18.	5	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1 श्री आर. सी. जोशी	सहायक यंत्री, अलीराजपुर
19.			2 श्री जगदीश वर्मा	सहायक यंत्री, भाभरा
20.			3 श्री जी. व्ही. तिवारी	सहायक यंत्री, जोबट
21.	6	प्रधानमंत्री सड़क परि. योजना, इकाई क्र. 1	1 श्री वेदप्रकाश यादव	महा प्रबंधक
22.			2 श्री बी. एस. परिहार	सहा. प्रबंधक
23.			3 श्री पी. के. घोष	सहा. प्रबंधक
24.			4 श्री व्हाय. एस. यादव	लेखाधिकारी
25.	7	प्रधानमंत्री सड़क परि. योजना, इकाई क्र. 2	1 श्री एम. डी. श्रीवास्तव	महा प्रबंधक
26.			2 श्री एस. के. मंसारे	सहा. प्रबंधक, सोण्डवा
27.			3 श्री एल. एस. मण्डलोई	सहा. प्रबंधक, कट्टीवाड़ा
28.			4 श्री एम. जी. जाधवानी	लेखाधिकारी
29.	8	जोबट परियोजना, नानपुर	1 श्री श्रीवास्तव	सहायक यंत्री
30.	9	सहकारी संस्थाएं	1 श्री मालवीया	उप पंजीयक
31.			2 श्री अट्टीया	सहायक पंजीयक
32.	10	एन.आर.ई.जी.एस.	1 श्री गोपाल शर्मा	सहायक यंत्री, अलीराजपुर
33.			2 श्री शैख हसरुद्दीन	सहायक यंत्री, सोण्डवा
34.			3 श्री कैलाश मकवाना	सहायक यंत्री, जोबट
35.			4 श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सहायक यंत्री, उदयगढ़
36.			5 श्री सुरेन्द्र सिंह गोड	सहायक यंत्री, कट्टीवाड़ा
37.			6 श्री लखन लाल द्विवेदी	सहायक यंत्री, भाभरा
38.	11	खण्ड शिक्षा अधिकारी	1 श्री विनोद कुमार कोरी	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, कट्टीवाड़ा
39.			2 श्री सतीश कुमार सिंह	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भाभरा
40.			3 श्री आर. एस. डावर	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़
41.			4 श्री टी. एस. अलावा	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जोबट
42.			5 श्री परमानन्द धाकड़	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, सोण्डवा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43.	12	विकासखण्ड अधिकारी	1 श्री डी. एस. सौलंकी	विकासखण्ड अधिकारी, जोबट
44.			2 श्री जी. एस. चौहान	विकासखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर
45.			3 श्री सुरसिंह बघेल	विकासखण्ड अधिकारी, भाभरा
46.	13	जिला पंचायत	1 श्री डी. के. जैन	सहायक यंत्री, अलीराजपुर
47.	14	पशु चिकित्सा विभाग	1 श्री राकेश बमनेले	पशु पालन विस्तार अधिकारी, उदयगढ़
48.			2 डॉ. श्री सी. एस. डावर	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, जोबट
49.			3 डॉ. श्री सुरेन्द्र सिंह मोर्य	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, जोबट
50.			4 डॉ. श्री सी. एस. भाटी	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, अलीराजपुर
51.			5 डॉ. श्री राकेश नागेशिया	पशु चिकित्सा सहा. शल्यज्ञ, सोण्डवा
52.			6 डॉ. श्री मालसिंह खरत	पशु पालन विस्तार अधिकारी, भाभरा
53.	15	जनपद पंचायत	1 श्री नानसिंह चौहान	अति. कार्यक्रम अधिकारी, जोबट
54.			2 श्री बापूसिंह बामनिया	अति. कार्यक्रम अधिकारी, भाभरा
55.			3 श्री हिरालाल चौहान	अति. कार्यक्रम अधिकारी, सोण्डवा
56.			4 श्री रविन्द्र कुमार जाधव	अति. कार्यक्रम अधिकारी, अलीराजपुर
57.	16	आजीविका परि. योजना	1 श्री आनन्द प्रकाश तिवारी	वित्त प्रबंधक
58.			2 श्री विजय सोनी	वित्त प्रबंधक
59.	17	महाविद्यालय	1 डॉ. एम. एल. नाथ	प्राचार्य, अलीराजपुर
60.			2 श्री राजेन्द्र सिंह वाघेला	सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय, अलीराजपुर
61.			3 श्री केशवमणी शर्मा	सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय, जोबट
62.			4 श्री चंपकलाल देवड़ा	सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय, अलीराजपुर
63.	18	उ.मा. वि.	1 श्री आर. पी. वर्मा	प्राचार्य, उ.मा.वि., जोबट
64.			2 श्री दिलीप भिंगारकर	प्राचार्य, उ.मा.वि., अलीराजपुर